

Products

- PVC Floor Coverings
- Synthetic Leather
- PVC Sheets & Films
- Technical Coated Textiles
- Customized Specialty Coatings

Date: 08.09.2022

To, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai -400001.

COMPANY CODE NO.: 531394.

Sub: Newspaper Advertisement-Notice of 37th Annual General Meeting ("AGM") and Evoting information

Dear Sir/Madam,

This is with reference to the above captioned subject and the relevant provision of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed copies of newspaper advertisement published on 08th September, 2022 in the Newspaper "Business Standard (English and Hindi)", regarding notice of 37th AGM schedule to be held on Friday, 30th September, 2022 of the Company and E-Voting.

This is for your information and record please.

Thanking You,

Yours faithfully, For Marvel Vinyls Limited

Rohan Dev Kaushik **Company Secretary**

Encl: a/a

Marvel Vinyls Limited, G-73 Connaught Circus, New Delhi-110001 Plants: Unit I, II Sahibabad (UP), Unit I, II, III Malanpur (MP)

www.marvelvinyls.com

Offices: New Delhi, Gurugram, Gwalior, Mumbai











Reliance buys into *desi* power

By acquiring a string of local consumer brands, the conglomerate is looking to build volumes and scale in its private label retail business

SURAJEET DAS GUPTA

New Delhi, 7 September

few days ago, Reliance Retail surprised the market by acquiring the Campa brand from Delhi-based Pure Drinks Ltd for ₹22 crore. A successful cola brand in the eighties, especially in North India, Campa Cola thrived when Coca Cola exited India in the late seventies. When the Atlanta-based major returned and PepsiCo set base in India, it went down fighting.

Even more surprising is the second carbonated brand with which according to sources talks are in the final stages for a joint venture. This is for Sosyo, a fizzy fruit juice brand from Surat which was closely associated with the coun $try \lq s \, freedom \, struggle. \, It \, was \, bottled \, in \,$ 1923 by the Hajoori family as a desi option to Vimto, a similar drink that was imported from the UK. The company boasts over 29 per cent share of this category in Gujarat, 18 manufacturing units, and sells over 20,00,000 crates every year.

So, why is Reliance Retail, with over 15,000 stores straddling lifestyle, electronics, fashion and foods, buying a defunct brand in a market in which PepsiCo and Coke have a stranglehold?

Apparently, there is a method in these seemingly high-risk deals. For the core element of Reliance's new retail strategy is twofold. First, it wants to be "Atmanirbhar" by building affordable indigenous products that can be scaled up. Second, it wants to acquire or work with a bevy of heritage or regional brands in the country by making them more contemporary and building scale across the country and the globe.

It's a strategy that has already been tried in consumer durables. For instance, Reliance Retail acquired the licensing and manufacturing rights late last year for the once popular brands BPL and Kelvinator (a US brand that was bought over by Electrolux but did not make a dent in India).

Their range of products is now being sold through Reliance Digital's 500-odd physical stores across the country as well as on their online store. And it has also moved quietly into general trade channels tapping smaller consumer electronics and durables stores.

Asked about the acquisitions, a



Reliance Retail's 'atmanirbhar' portfolio

- Has bought Campa from Delhibased Pure Drinks for ₹22 cr
- ■In talks to buy Sosyo, a fizzy fruit juice brand from Surat associated with the freedom struggle
- ■Acquired the licensing and manufacturing rights late last year for BPL and Kelvinator
- ■In talks to buy Garden Namkeen from CavinKare
- ■Closing in on a deal with Salem-based Varalakshmi, Asias's largest manufacturer of sabudana

policy, we do not comment on media speculation and rumours. Our company evaluates various opportunities on an ongoing basis. We have made and will continue to make necessary disclosures in compliance with our obligations under the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and our agreements with the stock exchanges."

However, the retro strategy is now getting a big push in the fast-moving consumer goods (FMCG) business, too, Reliance spokesperson said: "As a and sources said Reliance is scouting

for more local brands to expand its port-

folio of private label brands. To that end, Reliance is also looking at ethnic snack brands in different regions. Talks are on with Garden Namkeens from CavinKare and it is closing in on a deal with Salem-based Varalakshmi, Asia's largest manufacturer of sabudana (sago) and related products.

The new push in FMCG will force Reliance to lock horns with giants such as Unilever, ITC, even PepsiCo and Coke, and Adani Wilmar. So should competition worry? Soft drink multinationals say they are not; they believe Reliance will sell the beverages as a discounted brand through its own retail outlet in bulk packs and do the same in the general trade. Reliance has roped in former Coke boss in India T Krishnakumar to put together the FMCG plan.

"Our market is targeted at millennials for whom Campa has no recall and they don't buy based on just price but what the brand represents," said a senior executive in a multinational beverage company. Also, he argued, global brands have far deeper reach, which the competition has to still build up — about 5 million outlets across the country already supported by a cold chain. And with an established all-India franchise chain, they control the ₹20,000-crore market. What may need to be tracked, he added, is whether Reliance chooses to leverage the desi versus foreign brand

as a marketing proposition. In consumer durables, BPL TVs, refrigerators, lighting and kitchen appliances are already being sold through Reliance Digital. So are Kelvinator's products, which include their once popular refrigerators.

But TV is a tough market dominated by the Chinese and South Koreans. According to Counterpoint Research for Q12022, smart TVs, which accounted for 89 per cent of all TV sales, was led by Xiaomi with a 14 per cent share, followed by Samsung (13 per cent), LG (8 per cent) OnePlus (7 per cent) and Sony (5 per cent). The rest of the market is fragmented with numerous smaller brands such as BPL, Haier, Sansui and Toshiba. In the sub-₹20,000 price range, Chinese brand Realme was the most preferred brand.


In refrigerators, the numbers are even more skewed: Data from Statista shows that till June 2022, 92 per cent of the market share was controlled by just four brands — LG, Samsung, Whirlpool and Godrei.

Can nostalgia for old brands be rekindled and the product modernised once again to attract younger customers? Sandeep Goyal, managing director of ad agency Rediffusion, pointed out that "reviving old brands just because they were popular once upon a time is an erroneous supposition. The original audience that consumed the brand is not there and has passed its consumption peak. With the core target having aged, recreating the brand magic is very difficult. No one in the current generation is familiar with a Campa Cola or a Kelvinator. It will largely be a zero start."

But Goyal said that one reason for Reliance to buy these brands is that retail trade memory is longer and they remember the brands' glory days. There are some success stories such as Royal Enfield. But there are failures, too, such as Jawa and the Yezdi.

There are others who say that Reliance has nothing to lose since it has bought the rights and the brands at a very nominal price. Arvind Singhal, chairman of retail consultancy firm Technopak, said: "In India, consumers are brand conscious but have low brand recall. So buying these brands at a nominal cost makes immense sense. It's a smart strategy because no one in the country has Reliance's sheer distribution powers and can connect with millions of merchants.'

The question is whether it can leverage this strength and create magic around the brands to make them bigger and more contemporary.





NMDC Limited

Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028 CIN: L13100AP1958GOI001674

CONTRACTS DEPARTMENT

Tender Enquiry No.: H0 (Contracts)/DNM/PELLET/0&M/BP/149 NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Goyt, of India invites online bids through GEM Portal from experienced domestic bidders for "Operation & Maintenance of Beneficiation Plant for a period of 1 year at 1.2 MTPA Pellet Plant, Donimalai,

The detailed NIT an Bid documents can be viewed and / or downloaded from 07.09.2022 to

1. NMDC website http:/www.nmdc.co.in

2 Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) http://www.eprocure.gov.in/epublish/app and 3.GeM Portal - https://mkp.gem.gov.in/registration/signup#!/seller and search the Bid Number GFM/2022/B/2511681 dated 07.09.2022

For further help refer to seller-registration-pre-requisites-v1.2 on GEM Portal

The bidders are requested to submit their bids online through GeM Portal only. The details of submission of bid through online are given in NIT. The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website/CPP Portal/GeM website for corrigendum, if any, at a future date For further clarification, CGM (Contracts), NMDC Limited, Hyderabad can be contacted through Fax No. +91-040-23534746, Tel No. +91-040-23532800, email: contracts@nmdc.co.in

Chief General Manager (Contracts)

NARAYANI STEELS LIMITED

(CIN: L27109WB1996PLC082021)
Registered Office: Room-No: 31,7th Floor,23A, N.S Road, Kolkata-700001. Tel: 033 46025371, E-mail: narayanisteelsvizag@gmail.com Website: www.narayanisteels.co.in

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING CUT OFF DATE, AND E- VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Narayani Steels Limited (the "Company") will be held on Friday 30th September 2022 at 4 00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act,2013 read with General Circular numbers 20/2020, 14/2020. 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HOICFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SERI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars") due to COVID-19 pandemic without physical presence of members at a common venue, to transact the business as setforth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM (along with instructions for e-voting and participation in AGM through VC/OAVM) and web-link for accessing the Annual Report 2021-22 have been sent/ dispatched on 7th September, 2022 through email to all the members, whose email IDs are registered with the Company/DepositoryParticipant(s). These documents are also available on the website of the Company athttps://narayanisteels.co.in/investors/annual-report/stock exchange websites and on the website of Central Depository Services (India) Ltd ('CDSL') at evotingindia.com. Pursuant to provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and to ensure wider participation an e-voting facility through Central Depository Services (India) Ltd ('CDSL') has been made available to the members. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022, may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system of CDSL

remote e-voting'). Members are hereby informed that:

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM;

The remote e-voting shall commence on Tuesday, 27th September, 2022 (09.00 a.m. IST) and will end on Thursday, 29th September, 2022 (5.00 p.m. - IST);

Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. on 29th September, 2022; Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at ujata@bigshareonline.com However, if a person is already registered with CDSL fore-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote;

Members may note that: (a) after remote e-voting module is disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on 29th September, 2022 and once the votes on are solution is cast by the member the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OAVM mode (but who have not cast their vote on the resolutions through remote e -voting) and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM; (c) The members, who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (d) only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall

be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode. physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided

Place: Vizianagaram

Date 7th September 2022

The Company has appointed Ms. N. Agrawal & Associates, Practicing Chartered Accountants, to act as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. For the process and manner of e-voting (both remote e-voting and voting at the time of AGM) and also for attending the 27th AGM through VC or OAVM, Members may go through the instructions mentioned in the AGM Notice or visit CDSL website https://www.evotingindia.com/under help section and in case of gueries email to helpdesk, evoting@cdslindia.com. Members may please contact the Company at narayanisteelsvizag@gmail.com

For Naravani Steels Limited

Arun Kumar Meher Company Secretary

Vikram Kapur Dated: 07.09.2022 (Company Secretary & Compliance Officer)

CIN - L51109WB1981PLC034212 119 PARK STREET, WHITE HOUSE, 3RD FLOOR, KOLKATA-700016.

Email- info@bmwil.co.in Phone: 033-40071704 Website: www.bmwil.co.ir NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND

BMW Industries Limited

REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members o

BMW Industries Limited will be held on 30th September, 2022 (Friday) at 11:30 A.M. IS3 through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact he business, as set out in the notice of AGM dated 1st September 2022. In view of the continuing COVID – 19 pandemic and restrictions imposed on the movemen

of people, the AGM will be held in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, General ed 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13t April, 2020, and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR//P/2020/79 dated 12th May 2020 and collectively referred to as 'Circulars' to transact the ordinary businesses as set out in the Notice of the 40th AGM. Accordingly the Notice of AGM together with the Annual Report for F.Y. 2021-22 have beer

sent in electronic form only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Register and Share Transfer Agent/Depository Participant. The same are also available on the website of the Company at www.bmwil.co.in and website of the BSE Limited at www.bseindia.com. The requirement of sending physical copies has been dispensed with vide relevant Circulars

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2022 to Thursday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for AGM.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting facility provided through Central Depository Services (India) Limited https://https://www.evotingindia.com/

- All the business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through remote
- The remote e- voting period will commence on 27th September, 2022 (Tuesday) a 9.00 A.M. and ends on 29th September, 2022 (Thursday) at 5.00 P.M.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting and/or by e-voting at the AGM shall be the close of business hours of 23rd September, 2022 (Friday). Members holding share either in physical or in dematerialized form as on the close of the market hours of the said cut-off date, are eligible to cast their vote electronically through remote e-voting or through e-voting at the AGM. Any Person who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date may approach ABS Consultant Pvt. Ltd., Registrar & Share Transfer Agent of the Company, by e-mail absconsultant99@gmail.com for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by the electronic means.
- Members may note that:
- i) the remote e-voting module shall be disabled by Central Depository Services (India) Limited after the aforesaid date and time and no remote e-voting shall be allowed beyond the same. Once the vote on a resolution is cast by the member the member shall not be allowed to change it subsequently:
- the facility for e-voting shall be made available at the AGM;
- iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
- iv) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the close of market hours of the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote voting as well as voting at the AGM.
- In cases of any queries or grievances pertaining to e-voting, you may refer to the frequently asked questions (FAQs) at https://www.evotingindia.com/ userdocs/FAQs.pdf or contact through E.Mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Bhavesh Pimputkar (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Toll Free: 1800225533at Central Depository

For BMW Industries Limited Sd/-

> Place: New Delhi Date: 06.09.2022 ACS 9812

ABN INTERCORP LIMITED CIN: U55101DL2005PLC140406

Regd. Office: F-01, TDI Centre, Jasola, New Delhi – 110025 Ph: 011-4132 4180

Mail Id: abncompliance@gmail.com website: www.abnintercorp.com Notice of 17th Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that :

The 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday 30th September, 2022 at 2p.m. at the Registered Office at F-01, TDI Centre, Jasola, Nev Delhi New Delhi - 110025 IN, to transact the Business as set out in the Notice of AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of th

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015, the Registrar of Members and Share Transfer Book of company will remain closed from Tuesday, 27" September, 2022 to Friday, 30" September, 2022 (Both Days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the company to be held on Friday, 30" September, 2022 for the financial year ended on 31" March, 2022. For, A B N Intercorp Limited

Mr. Ajai Kumar Rastogi Managing Director DIN:00322447

cent higher than in India. The coming

of 5G technology will add over \$1

estimates sav.

trillion to global GDP by 2030, some

Marvel

MARVEL VINYLS LIMITED

[CIN: L74899DL1985PLC0210852] REGD. OFFICE: G-73, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI - 110 001

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

(A) 37thANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:00 A.M. at A-40, Rajouri Garden, New Delhi - 110027, to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the said Annual General Meeting.

Pursuant to Section 101 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022 along with the Notice of 37th AGM have been sent to the members in the permitted mode

Members are hereby informed that the Notice of the 37th Annual General Meeting and 37th Annual Report of the Company available on the website of the Company www.marvelvinyls.com and will also be available for inspection at the registered office of the Company for inspection on all working days except Saturday and Sunday, between 11.00 a.m. to 1.00 PM. (B) BOOK CLOSURE:

NOTICE is further given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and pursuant to the provisions or the SEBI Listing Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24th, 2022 to Friday, September 30th 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting

(C) E-VOTING INFORMATION:

(A) EVO TING IN TO MAINTAIN.
As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Amendment Rules, 2015, and pursuant to the provisions of Listing Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all Resolutions set forth in the Notice of the AGM of the Company scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 through e-voting services provided by CDSL. For the instruction of E-voting, shareholders may go through the instruction in the Notice of 37th AGM.

The Ordinary and the Special Business as stated in the Notice of 37thAGM may be transacted

. The date and time of commencement of remote e-voting: September 27th, 2022 at 09:00 A.M. (IST).

The date and time of end of remote e-voting: September 29th, 2022 at 05:00 P.M. (IST). Cut-off date: September 23rd, 2022.

The members may note -A. Remote e-voting shall not be allowed beyond September 29th, 2022, 5:00 PM (IST)

- Once the vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change
- C. The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be
- able to exercise their right at the meeting through polling paper;

 D. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficia owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail

the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means: Name: Mr. Rakesh Dalvi Designation: Sr. Manager; Address: Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400013; E-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone: 1800225533. Members may also write to the Company Secretary at "cs@marvelvinyls.com" or the Registered Office of

The Company has appointed Mr. Ankur Singh, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s Ankur Singh & Associates, New Delhi as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-By order of the Board of Directors of M/s MARVEL VINYLS LIMITED

Pavan Kumar Chawla

(Chariman & Managing Director) DIN:00101197

ள்ள 3ர்பா எதிர்பு Bank of Baroda Bhilwara (Raj.)-311001 Ph. No. 01482-230367, 230368, 8094007127 APPENDIX IV [Rule 8(i)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Brazil

Source: ITU (UN Agency)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the **Bank of Baroda** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 29/06/2022 calling upon the Borrower Mrs. Afsar Qureshi W/o Mr. Lukman Qureshi, Mr. Lukman Qureshi S/o Mr. Kamaruddin, Mr. Sharif Mohd, Nilgar S/o Mr. Jamaluddin Nilgar to repa the amount mentioned in the notice being Rs.27,01,510.50 including interest upto 28.06.2022 and further interest, other expenses within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers an the public in general that the undersigned has taken possession of the properties describe herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this the **03r**d

day of Month September of the year 2022. day of Month September of the year 2022.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount in Rs. 27,01,510.50 including interest upto 28.06.2022 and further interest, other expenses thereon. The Borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset

Description of the Immovable Properties (as per Record Available with Bank) All that part and parcel of Residential Property situated at House/Plot No. F-151/1, Dr. Radhakrishna Nagar, Bhilwara (Rai) in the name of Mrs. Afsar Qureshi W/o Mr Lukman Qureshi. (Admeasuring 1375 Sq. ft. as per records available in bank) Registration under Sub-District Bhilwara & Distt. Bhilwara (Raj.). Bounded by: East-House/Plot No. F-172, West-Road, North - House/Plot no. F-151, South - House/Plo Authorised Officer Date: 03.09.2022 Place: Bhilwara (Raj.)

APPENDIX IV [See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

The Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED ("IHFL") under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforce of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 06.09.2016 calling upon the Borrowers MR. ASHOK KUMAR JAISWAL PROPRIETOR M/S JAISWAL IMPEX AND MRS. MANJU KUMARI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.21,41,305 (Rupees Twenty One Lakhs Forty One Thousand Three Hundred Five Only) against Loan Account No. HLAPNOI00192285 as on 31.08.2016 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. Further the IHFL has assigned all its rights, title and interest of the above loan account in favor o Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited as Trustee of EARC Trust

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 05.09.2022.

- SC 439 by way of an Assignment Agreement dated 30.09.2021

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge o Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited for an amount Rs.21,41,305 (Rupees Twenty One Lakhs Forty One Thousand Three Hundred Five Only) as on 31.08.2016 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

MART NO. B-12/48, GROUND FLOOR, IN THE COMMERCIAL BUILDING KNOWN AS EXPO MART SITUATED AT PLOT NO. - 25, 27, 28 & 29, KNOWLEDGE PARK-II GREATER NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) ADMEASURING 43.64 SQ. M TOTAL AREA (24 SQ. M CARPET AREA +19.64 SQ. M SUPERAREA = 43.64 SQ. M) (PHASE-II) AND BOUNDED AS UNDER:

EAST : As mentioned in Title Deed WEST : As mentioned in Title Deed NORTH: As mentioned in Title Deed SOUTH: As mentioned in Title Deed

Authorised Officer Date: 05.09.2022 Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited Place: NOIDA Trustee of EARC Trust - SC 439

Marvel

मार्वल विनायल्स लिमिटेड ICIN: L74899DL1985PLC0210852

पंजीकृत कार्यालयः जी-73, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 वेबसाइटः www.marvelvinyls.com । ईमेलः cs@marvelvinyls.com दूरभाषः +91 (11) 45306666 । फैक्सः +91 (11) 45306677 37वीं वार्षिक साधारण बैठक, बही बंदी एवं

ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

(ए) 37वीं वार्षिक साधारण बैतक र प्राचना वाचन विज्ञात विज्ञात विज्ञात विज्ञात का प्राचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष इपदाद्वारा सूचना दी जाती है कि संबंधित वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (**"एजीएम"**) गुक्रवार, 30 <mark>सितम्बर, 2022 को पूर्वाहन 11.00 बजे ए-40, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027</mark>

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 18 के साथ प्रतित धारा 101 के साथ प्रतित निय 18 के अनुसार 37वीं एजीएम की सुवना के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का वार्षिक प्रतिवेद सदस्यों को अनुमत प्रारूप में भेज दिए गए हैं।

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 37वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथ 37वें वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट <u>www.marvelvinyls.com</u> पर उपलब्ब है एवं निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी सभी कार्यकारी दिवस को शनिवार एवं रविवार को छोड़कर पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे के बीच उपलब्ध रहेगा।

(बा) बहा बदा: पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रवंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सेबी सूचीकरण विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक् साधारण बैठक के उद्देश्य से कृंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार तथा सूचीकरण विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी अपने सदस्यो को सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त ई-वीटिंग सेवाओं के जिए शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली कपंनी की एजीएम की सूचना में निर्धारित समी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीक से अपना वोट डालने की सविधा प्रदान कर प्रफल्लित है। ई-वोटिंग की निर्देशावलियों के लिए शेयरधारकगण 37वीं एजीएम की

- 37वीं एजीएम की सूचना में यथा उल्लेखित साधारण एवं विशेष व्यवसायिक मुद्दों का निष्पादन

- (भामास)।
- अंतिम तारीख : 23 सितम्बर, 2022
- सदस्यगण ध्यान दें क. 29 सितम्बर, 2022, अपराहन 5.00 बजे (भामास) के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नर्ह
- अपने वोटाधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
- . रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट डाले जाने के उपरांत सदस्यगण साधारण बैठक में भाग सकते हैं, परंतु बैठक में उन्हें दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा . जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरी द्वारा रखरखा किए जाने वाले लाभभोगी स्वत्वाधारी के रजिस्टर में दर्ज हैं सिर्फ वे ही रिमोट
- मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013; ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूरभाषः 1800225533, सदस्यगण कंपनी सचिव के पार

res@marvelvinyls.com 'प अथाव कंपनी के पंजीकृत कार्यांतव में भी तिख सकते हैं। पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा वोटिंग की जांच के लिए कंपनी ने मैससे अंकुर सिंह एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली के स्वत्वाधिकारी श्री अंकुर सिंह, अभ्यासरत कंपनी सर्थिव को जांबकत्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से मैसर्स मार्वल विनायल्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली तारीख: 06.09.2022

हस्ता/ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

dhani Services

DHANI SERVICES LIMITED (CIN: L74110DL1995PLC069631)

Registered Office: 1/1 E, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008 Tel: 011-41052775, Fax: 011-42137986

Website: www.dhani.com, Email: support@dhani.com

Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday September 29, 2022, at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as liste in the AGM Notice dated September 1, 2022, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corpora Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office o the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may atter

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 27th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annua Report") has been sent, through electronic mode on September 6, 2022, to those bers whose e-mail address is registered with the Company / Registrar & Shar

The aforesaid documents are also available on www.dhani.com www.skylinerta.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended ("the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, September 26, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rule and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details wit regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facili

are provided below:			
Link to VC / OAVM	https://emeetings.kfintech.com/		
Link for remote e-voting	For Individual Members:		
	https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities		
	in demat mode with NSDL)		
	https://www.cdslindia.com/ (holding securities in		
	demat mode with CDSL)		
	For non-Individual Members and Members		
	holding shares in physical form:		
	https://evoting.kfintech.com		
Cut-off date for determining the	Thursday, September 22, 2022. The voting		
Members entitled to vote	rights of Members shall be in proportion to their		
through remote e-voting or	shares in the paid-up equity share capital of the		
during the AGM	Company, as on September 22, 2022.		
Commencement of remote	Monday, September 26, 2022 at 10.00 A.M.		
e-voting period			
End of remote e-voting period	Wednesday, September 28, 2022 at 5.00 P.M.		

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 28 2022 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting However to enable the Members, who have not cast their vote through remo e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may atter the AGM through VC/OAVM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered the e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2022 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are provided in the AGM Notice, which is available on the website of the Company viz. www.dhani.com and also on the Website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of RTA at www.skylinerta.com

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement ar available on the website of the Company for Inspection by the Members

Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can also register their e-mail ID by following the process given in the AGM Notice or sending e-mail at evoting@kfintech.com by providing their name registered as per the records of the company, address, e-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and number of

Mr. Raj Kumar (Membership No. 501863), Proprietor of M/s AMRK & Associates Chartered Accountants has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting process

VC/OAVM or the electronic voting, Members may contact Mr. PSRCH Murthy, Sr. Manager - RIS, KFin Technologies Limited, Unit: Dhani Services Limited Selenium Tower B. Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001 E-mail id: murthy.psrch@kfintech.com or evoting@kfintech.com

Place : Gurugram Date : September 7, 2022

By Order of the Boar

ABN INTERCORP LIMITED

CIN: U55101DL2005PLC140406 Regd. Office: F-01, TDI Centre, Jasola, New Delhi – 110025 Ph: 011-4132 4180

Mail Id: abncompliance@gmail.com website: www.abnintercorp.co Notice of 17th Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that :

The 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday 30thSeptember, 2022 at 2p.m. at the Registered Office at F-01, TDI Centre, Jasola, Nev Delhi New Delhi - 110025 IN, to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015, the Registrar of Members and Share Transfer Book of company will remain closed from Tuesday, 27" September, 2022 to Friday , 30" September, 2022 (Both Days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the company to be held on Friday 30th September, 2022 for the financial year ended on 31st March, 2022.

For, A B N Intercorp Limited

Mr. Ajai Kumar Rastogi Managing Director DIN:00322447

परिशिष्ट IV

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **असलम खान और ममता उर्फ ममता सनन** को **25.05.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLGRG00219052 की राशि रू. 15,59,262.94 (रूपये पंद्रह लाख उनसठ हजार दो सौ बासठ और चौरानवे पैसे मात्र) और 18.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की

जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 03.09.2022

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.15,59,262.94 (रूप<mark>ये पंद्रह लाख उनसठ हजार</mark>

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अधिकारों के साथ, इसके साथ संबंधित अधिकारों सहित, तल मंजिल पर सामान्य एक ट व्हीलर पार्किंग स्पेस के साथ, कॉलोनी राजा परी से पहचाने जानेवाला क्षेत्र आबादी,गाँव पालम के रेवेन्य एस्टेट में स्थित खसरा नंबर-104/24/1में से बिल्ट-अप प्रॉपर्टी बियरिंग प्लॉट नं. ई-184, मापित 50 चौ.यार्डस् यानि 41.81चौ. मीटर के पीछे की ओर छत/टेरेस के अधिकार के बिना ऊपरी तल मंजिल पर (पीछे की ओर) बिल्ट-अप प्रॉपर्टी के सभी भाग और खंड उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 जो निम्ननसार परिबध्द है :

पश्चिम : अन्य का प्लॉट उत्तर : 10 फीट चौडी गली

दक्षिण : बिल्डींग का हिस्सा

दिनांक : 03.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सं.ए-12023/1/2022-प्रशा.I

भारत सरकार नीति आयोग

नीति भवन, संसद मार्ग,

विषय: ज्ञान नवाचार केंद्र (केआईएच), नीति आयोग के तहत वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (स्वास्थ्य) के पद हेतु आवेदन

ज्ञान नवाचार केंद्र (केआईएच), नीति आयोग के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के पद हेतु दिनांक 25.06.2022 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष अपर्याप्त संख्या में प्राप्त आवेदनों के कारण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन होगी।

DAVP 54101/12/0015/2223

(अशोक कुमार) अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड HHI NOD00407077 की राशि रू. 39 03 250 96 (रूपये उनतालीस लाख तीन हजार हो सौ प्रचास

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना 05 09 2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 39,03,250.96 (रूपये उनतालीस लाख तीन

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. टीएफ--4 (बाएँ हाथ के पीछे की ओर), तीसरी मंजिल, फ्रीहोल्ड प्लॉट नं. 699 पर निर्मित, क्षेत्र माप

मालिक/बंधककर्ता

मालिक/बंधककर्ता

दिनांक : 05.09.2022 स्थान : गाज़ियाबाद

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

हजार नौ सौ अट्ठासी और इक्यासी पैसे मात्र) 16.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी

होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड

एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग

करके कर्जदार **विनेश बिसस्ता और परमजीत सिंह बिसस्ता** को 21.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार

कर्ज खाता नं. HHLGUG00452671 की राशि रू. 61.99.988.81 (रूपये इकसठ लाख निन्यानवे

हजार नौ सौ अट्ठासी और इक्यासी पैसे मात्र) और <mark>16.12.2021</mark> के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की

प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना

दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के

तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 61,99,988.81 (रूपये इकसठ लाख निन्यानवे

अचल संपत्ति का विवरण

05.09.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

सेक्टर-11, डीएलएफ मॉडल टाउन, ब्लॉक-ई, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ), प्लॉट नं.130 मापित 300 चौ. यार्डस्, जिसका कवर्ड क्षेत्र 82.14 चौ. मीटर्स, के सभी भाग और खंड, फरीदाबाद-121006,

दिनांक : 05.09.2022 स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

राहुल मर्चैण्डाइजिंग लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC052461

पंजी. कार्यालयः मकान नंबर 1/61-बी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 फोन: 011-26212295

ई-मेल: rahulmerchandising@gmail.com, वेबसाइट: rahulmerchandising.in

29वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से नदृद्वारा सूचना दी जाती है कि **राहुल मर्चैण्डाइजिंग लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की 29व वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को अप. 3.00 बजे आईएसटी कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 और तदधीन जार्र सर्कुलर्स के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो वेजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना सूचीबद्ध व्यवसाय मदों का निष्पादन किया जाएगा। उक्त एजीएम की सूचना में अन्य के साथ वीर्स

र्के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश दिए गए हैं।

ई—मेल पता के पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि : . ९ स्वस्थराण, जिनके शेयर डीमैट रूप में हैं तथा अभी तक अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत / अद्यतन नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले मे एनएसडीएल / सीडीएसएल ("डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट") से सम्पर्क करें। सदस्यगण, जिनके शेयर विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153-ए प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 ('आरटीए') को प्रेषित करे अथवा हमारे आरटीए को admin@skylinerta.com पर ई—मेल लिखें और साथ में पैन कार्ड और पता प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय मदों पर अपना वोट रिमोटली डालने व अवसर पदान किया जाएगा । रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर, 2022 (पूर्वा, 09.00 बजे) से आरंभ होगी तथा 29 सितम्बर, 2022 (अप. 05.00 बजे) समाप्त होगी। ई—वोटिंग के प्रयोजन हेतु कट—ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2022 होगी। भौतिक शेयरधारकों अथवा उन शेयरधारकों, जिन्होंने अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है अथवा सूचना प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करने और कम्पनी का सदस्य बनने वाले व्यक्ति द्वारा ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने का तरीका, एजीएम की सूचना में दिया गया है। उपरिवर्णित तिथि और समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ।

एतदुद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीयन विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार 24 सितम्बर 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियों सहित) तक, एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी कम्पनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग हेतु व्यवस्था करेगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वार अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग तथा सामान्य बैठक में वोटिंग का हकदार होगा। 29वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना वार्षिक रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट नामव

www.rahulmerchandising.in/investor-desk/annual-reports पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज ामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट<u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

वास्ते राहल मर्चैण्डाइजिंग लिमिटेड हस्ता. 🖊

तिथि: 06.09.2022

(वैभव गोयल) पूर्ण-कालिक निदेशक DIN: 07899594

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों, एमसीए परिपत्र दिनांक 5 मई 2020 के साथ पिठर

03 जून, 2022 (संयुक्त रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम बुलाने वाली सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के शेयरघारकों की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 को प्रात: 11.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यगण https://emeetings.kfintech.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होन के लिए सक्षम होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणन अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी। परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 2021—22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों को केवल ई—मेल की गई है जिनके ई—मेल

पते कंपनी /डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in और स्टाक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com के साथ ही केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन) की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.karvy.com/ पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम की घारा 108 (अधिनियम) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित औ भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सचीयन विनियम) के अनुपालन में, कंपर्न अपने सदस्यों को 23 सितम्बर, 2022 (कट—ऑफ तिथि) या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यो को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपना वोट इलेक्टॉनिकली देने की सविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने ई—वोटिंग प्रक्रिय का रेजार ने किए जाने वाले क्यरियान के सांबर ने जनने भी वार्ड संपद्धान करता के ने कि सुर्विध उस्ताक कर रहिता है को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सुश्री पूजा मिश्रा, मैसर्स पूजा मिश्रा एंड कें, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और ज़िएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे ही एजीएम में वोट देने के लिए सक्षा होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं किंत उन्हें बैतक में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के संबंध में यूजर आईडी एवं पासवर्ड के विवरणों सहित सूचना एवं निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। समान लॉगइन क्रेडेंशियल्स का उपयोग वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल

हैं, के लिए रिमोट ई—वोटिंग एवं एजीएम में ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश एजीएम सूचना में संलग्न नोट्स में दिये गये हैं। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के अनुसार डिमेट प्रारूप में प्रतिमृतियां घारण करने वाने व्यक्तिमत बरस्य को हिएएँपिररीज एवं दिएएँपिररीज एतिसामी के बाश जनके हिमेर खाते के माध्यम से वोट रेने की अनुमति है। सरस्यो को सलाह दी जाती है कि वे ई-बोटिंग सुविधा का लाम उठाने के लिए अपने डिमेट खाते में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी अपडेट कराएं । भौतिक पारूप में प्रतिभतियां धारण करने ताले व्यक्तिगत सदस्यों को ई-तोटिंग प्लेटफार्म https://evoting.kfintech.com के माध्यम से वोट देने की अनुमति है। व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी ई—वोटिंग प्लेटफार्म https://evoting.kfintech.com के माध्यम सं अपना वोट दे सकते हैं।

रिमोट ई—वोटिंग 26 सितम्बर, 2022 (प्रातः 09.00 बजे) प्रारंग होगी और 28 सितम्बर, 2022 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई—वोटिंग अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 को या तो भौतिक प्रारूप ा डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। एक बार सदस्य द्वार वोट देने के बाद में उसे बदला या निरस्त नही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारण करता है, ऐसा व्यक्ति एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के माध्यम से अपने डिमेट खाते के लॉगइन क्रेडेशियल्स का उपयोग करके ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग कर सकता है। एनएसडीएल एवं सीडीएसएल में डिमेट खाता धारक सदस्य लॉगइन में कोई भी तकनीकी परेशानी होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क को ई—मेल evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 18001020990 या 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं और सीडीएसएल हेल्पर्डेस्क ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या फोन नं. 022-23058738 वत 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या एजीएम से पूर्व किसी भी तकनीकी परेशानी या एजीएम के दौरान बैठक में भागीदारी के लिए किसी भी परेशानी के मामले में सदस्याण केफिन के ई—मेल emeetings@kfintech.com या हेल्पलाइन नं. 18003094001 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपना ई—मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत कराएं।



पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड पंजी. कार्यालयः डीटीजे-209, 2 फ्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025 कार्पोरेट कार्यालयः पी—4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (यू.पी) 201306 टेली फैक्सः 011 & 41421439; ईमेलः investors@pgel.in वेबसाइटः www.pgel.in

20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020, 31 दिसम्बर, 2020 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया

आगे सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सूचीयन विनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम के प्रयोजन हेतु सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितम्बर, 2022 से 29 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

(प्रशासन 1ए एवं भर्ती अनुभाग) नई दिल्ली, 24 आगस्त, 2022

प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के संबंध में।

एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **गौरव सेठी और रीतू डोगरा** को 31.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं.** और छियानवे पैसे मात्र) और 27.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके

हजार दो सौ पचास और छियानवे पैसे मात्र) 27.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

200.11 चौ.मीटर्स, शक्ति खंड-।।। में स्थित , आवासीय कॉलोनी इंदिरापुरम, तहसील और जिला गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश ।

(Be)

पार्क, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई-400 063 (प्रतिभति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के परिशिष्ठ-IV के सह-पठित नियम-8(1) के तहत)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने मुथुट होमफिन (इंडिया) (एमएचआईएल) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियाँ के प्रयोग से कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित उधारकर्ता(औ)/गारंटर(शें) को मांग सूचना जारी कर उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन भूतर मृगतान करने के कहा था। उधारकर्ता राशि वृक्तने में विफल रहे हैं, एतद द्वारा उधारकर्ता(औ)/ सह-उधारकर्ता(औ)/गारंटर(शें) और सर्व सामान्य को सूचना वी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्राप्त स्वत्त शक्तियों के प्रयोग से निम्न विणीत संपत्ति का **कब्जा** ले लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ता / ऑ, गारंटर / ऑ और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वह संपत्ति से कोई लेन—देन न करें संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार एक उपर्युक्त मांगी गई राशि और उस पर भविष्य के ब्याज के लिए मुथुट होमफिन (इंडिया)लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान**

उधारकर्ता(ओं)/सह– उधारकर्ता(ओं)/ऋण सं./शाखा	प्रत्याभूत संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांच सूचना की दिनांक और कुल बकाया देय (रू.में)	कब्जे की दिनांक
निधी यादव (सह–उधारकर्ता)	प्लॉट सं.20, सावित्री एन्क्लेव, क. सं. 314, ग्राम शाहबेरी, परगना और तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201001	22.03.2022 <mark>और रूपये</mark> 10,88,950/— (रूपये दस लाख अड्टयासी हजार नौ सौ पचास मात्र)	02-09-2022
स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांक : 08.09.2022		हस्ता./– प्राधिकृत प्रति मुथुट होमफिन (इंi	

OMKARA

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पजीकृत कार्यालय : 9, एम.पी. नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत शोमिल किया गया और वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्मीण और प्रतिभूतिहित पवर्तन अधिनियग 2002(सरफैसी अधिनियम) की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है, इंडसइंड बैंक लिमिटेड और और ''ओएआरपीएल'' द्वारा उनके बीच निष्पादित असाउनमें ट समझोते के आलेक में इंडसइंड बैंक लिमिटेड से ऋण खाते प्राप्त किये और जबकि''ओएआरपीएल'' अब अधिनियम के तहत प्रत्याभूत ऋणदाता होने के नाते (ओमकारा पीएंस 06/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी और ओमकारा पीएस 30/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी रूप में कार्य करते हुए), और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के नियम के तहत प्रदर्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ताओं /सह—उधारकर्ताओं को मांग सचना जारी कर सचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ सचना

क्र. सं .	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता	एनपीए की दिनांक	13(2) की दिनांक	बकाया राशि/देय दिनांक
	1. यूनिकॉर्न वर्ल्ड लॉजिवेर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता और दृष्टिबंधककर्ता) जीए-2, ब्लॉक जी, हरी नगर, नई दिल्ली-110058, 2. श्री योगेश मल्होत्रा (गारंटर/बंधककर्ता) वीबी-19, प्रथम तल, गली सं. 1, विरेन्द्र नगर, जनकपुरी, दिल्ली-110058, 3. श्री सुनिल कुमार मिश्रा (गारंटर) 1315, सेक्टर 5, वसुंधरा प्लाजा के पास, मोहन मिकेन्स सोसायटी, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012, 4. श्रीमती पूष्पा मल्होत्रा (गारंटर/बंधककर्ता) वीबी-19, प्रथम तल, गली सं. 1, विरेन्द्र नगर, जनकपुरी, दिल्ली-110058		24.03.2022	रू. 1,57,36,501.75/— (रूपये एक करोड़ सत्ताबन लाख छत्तीस हजार पांच सौ एक और पचहत्तर पैसा मात्र) दिनांक 31.05,2021 को संग 01.06.2021 से प्रलेखित दर से भविष्य का ब्याज भुगतान की दिनांक तक और अन्य लागतों।

पत्राभन परिसंपत्तियों का विवरण : उधारकर्ता की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ कच्चे माल का स्टॉक

अचल संपत्तियों का विवरण

तेहार, जी ब्लॉक, गली सं. 17, हरी नगर, नई दिल्ली–58 पुष्पा मल्होत्रा
 2.
 1. मैसर्स अश्विनी कुमार संस (उधारकर्ता और दृष्टिबंधककर्ता)
 06.11.2020
 13.03.2022
 रु. 5,56,22,002.19/— (रुपये पांच करोड़ छप्पन लाख बाईस हजार दौ और उन्नीस पैसा मात्र) दिनांक ३ 1 ०५ २०२ :

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण : विशेष रूप से वित्त पोषित अन्य बैंकों द्वारा कंपनी की चल अचल संपत्तियों पर पहला और अन्य शुल्क वर्तमान और

मालिक/बंधककर्ता अचल संपत्तियों का विवरण भूतल का दक्षिणी भाग बिना छत अधिकारो मापक 144.44 वर्ग गज निर्मित संपत्ति सं. 150, कुल मापक 334 वर्ग गज श्रीमती अंजली कुमार र्स्थित डीबीएस सीएचबीएस लिमिटेड के लेआऊट प्लान में, टैगोर पॉर्क मॉडल टाऊन, दिल्ली, सीमांकन : उत्तर : प्लॉट सं

।. श्रीमती रुद्र मेटल प्लास्ट (उधारकर्ता और दृष्टिबंधककर्ता) फ्लैट सं **रु. 71,09,925.55/-** (रुपये 304 . गणपति हाईट अर्पाटमेंट . हरियाणा रोडवेय वर्कशाप माता रोड के पास इकहत्तर लाख नौ हजार नौ सौ डुगांव, हरियाणा—122001, **2. श्री प्रमोद डोगरा (गारंटर)** मकान र पच्चीस और पचपन पैसा मात्र उजी—1. गणपति हाइट्स. हरियाणा रोडवेयस वर्कशाप के सामने. प्रेम नगर दिनांक 31.05.2021 को संग . डगांव, हरियाणा–122022, **3. श्री सौरभ डोगरा (गारंटर/बंधककर्ता** 01.06.2021 से प्रलेखित दर से नकान सं. यूजी–1, गणपति हाइट्स, हरियाणा रोडवेय्स वर्कशाप के सामने, प्रेम नगर, गुडगांव, हरियाणा–122022, **4. श्री कुलविंदर सिंह वासु** भविष्य का ब्याज भुगतान की दिनांक (गारंटर) ई–3, ब्लॉक, एस.एफ.एस फ्लैट्स (आस्था कुंज), रोहिणी तक और अन्य लागतों । ोक्टर—18, दिल्ली—110089

इसलिए कॉलम नं 3 में उल्लेखित उधारकताओं / सह—उधारकताओं /बंधककर्ताओं को सचित किया जाता है कि उनसे संबंधित उधारकताओं / सह—उधारकताओं /बंधककर्ताओं उन्हें इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर कॉलम नं, 6 में दिखाए गए कुल राशिका गुभरान करने का आहान किया गया है क्योंकि उक्त राशिका गुभरान करने का आहान किया गया है क्योंकि उक्त राशिक मुस्तान करने का आहान किया गया है क्योंकि उक्त राशिक मुस्तान करने का आहान किया गया है कि यदि भुगरान की दिनांक तक देय होने वाली भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो ''ओएआरपीएल'' को ऊपर वर्णित सम्पत्तियों पर प्रत्याभुत हित को प्रवर्तित करने के लिए उचित कार्यवाही करने वे

(ओमकारा एआरसी पीएस 06/2021-22 दूस्ट के दूस्टी के रूप में अपनी क्षमता से)

Date : 05/09/2022 Place : New Delhi

(अचल संपत्ति हेतु)

तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

दो सौ बासठ और चौरानवे पैसे मात्र) 18.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

सुख-सुविधाएँ के पेटेंट या गुप्त सभी अधिकार के साथ, रास्ते के अधिकार सहित, एक्सेस का आनंद लेना और आनंद लेने के लिए आवश्यक, संपत्ति के संबंध में क्वा टीवी एंटीना और पानी की टंकी, आदि के सभी अधिकार के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता, फिटिंग, फिक्स्चर्स, कनेक्शन्स, आदि उस पर खडी संरचना, स्वामित्व और

नब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप—ेधारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 08.09.2022

कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/515, कनाकिया जिलियन, जंक्शन ऑफ एलबीएस रोड एण्ड सीएसटी रोड बीकेसी एनेक्स इकविनोक्स के पास, कुरला (वेस्ट), मुम्बई – 400070, फोन: 022–26544000, ईमेल:mumbai@omkaraarc.com/www.omkarakaarc.com

न उल्लाखत साराका बुकाना है, लाकनाया मन्न कारणा न उनने से कुळ पर सूचना नहाँ जा सका।						
क्र. सं .	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता	एनपीए की दिनांक	13(2) की दिनांक	बकाया राशि/देय दिनांक		
	1. यूनिकॉर्न वर्ल्ड लॉजियेर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता और दृष्टिबंधककर्ता) जीए-2, ब्लॉक जी, हरी नगर, नई दिल्ली-110058, 2. श्री योगेश मल्होत्रा (गारंटर/बंधककर्ता) वीबी-19, प्रथम तल, गली सं. 1, विरेन्द्र नगर, जनकपुरी, दिल्ली-110058, 3. श्री सुनिल कुमार मिश्रा (गारंटर) 1315, सेक्टर 5. वर्सुधरा प्लाजा के पास, मोहन मिकेन्स सोसायटी, वर्सुधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012, 4. श्रीमती पृष्पा मल्होत्रा (गारंटर) वर्सुधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012, 11, विरेन्द्र		24.03.2022	रू. 1,57,36,501.75/— (रुपये एक करोड़ सत्ताबन लाख छत्तीस हजार पांच सौ एक और पचहत्तर पैसा मात्र) दिनांक 31.05.2021 को संग 01.06.2021 से प्रलेखित दर से भविष्य का ब्याज भुगतान की दिनांक तक और अन्य लागतों।		

प्रगति पर काम, तैयार माल, प्राप्य, बुक ऋण और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं **संपार्श्विक :** बैंक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक (''बंधक'') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है

संपत्ति सं. डब्ल्यूजेड्–170, प्लॉट जीए/2 का भाग, खसरा सं. 802, 803, 839, 840 में से, भूमि मापक 100 वर्ग गज ग्रा योगेश मल्होत्रा को संग 01.06.2021 से प्रलेखित दर से भविष्य का ब्याज भगतान की दिनांक तक

भविष्य दोनों अन्य परिसंपत्तियों को छो.डकर **संपार्श्विक :** बैंक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक (' 'बंधक' ') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण : उधारकर्ता की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक जिसमें अन्य बातो के साथ—साथ कच्चे माल का स्टॉक प्रगति पर काम, तैयार माल, प्राप्य, बुक ऋण और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं। **संपार्श्विक :** बैंक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक (''बंधक'') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्लैट सं. 304, गणपति हाइ्ट्स अर्पाटमें ट्स, हरियाणा रोडवेयस वर्कशॉप माता रोड के पास, गुड़गांव, हरियाणा— 122001 मापक

प्रति ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

(सी) ई-वोटिंग की जानकारीः

इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के जरिए किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ होने की तारीख एवं समयः 27 सितम्बर, 2022 को सुबह 09.00 बजे रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तारीख एवं समयः 29 सितम्बर, 2022 को अपराह्न 05.00 बजे

दी जाएगी। ख. सदस्यों द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के उपरांत, उन्हें उसमें बदलाव करने की अनुमति नई

ग. एजीएम में पोलिंग पेपर के जरिए वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाल चुके सदस्यगण एजीएम की बैठक में पोलिंग पेपर के जरिए

किए जान वाल लाममाना स्वत्याधारा के राजस्टर म दर्ज है। सिफ व है। रिमीट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ वार्षिक साधारण बैठक में वोट डालने के योग्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी तथा दूरभाष नम्बर: नाम: श्री राकेश दल्दी, पदनाम: वरिष्ठ प्रबंधक; पता: सेंट्रल डिगॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, पच्चीसर्वी मंजिल, नैराधन फुचरेक्स,

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING AND BOOK CLOSURE** Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of Dhar

the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice

Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). www.nseindia.com.

clusive) for annual closing (for the purpose of AGM)

either with the Company or their respective DPs.

and KFintech at https://evoting.kfintech.com.

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through

For Dhani Services Limite दिनांक : 07.09.2022 स्थान : दिल्ली एनसीआर

Company Secretary

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी

अचल संपत्ति का विवरण भूमि के नीचे के समानुपातिक अधिकारों के साथ, सामान्य सीढ़ी, प्रवेश और पैसेज, बिल्डींग के सभी सामान्य

कब्जे के सभी अधिकारों के साथ।

मुथुट होमफिन (इंडिया)लिमिटेड कॉपॉरेट कुार्या्नय: 1201 और 1202, 12वां तल, 'प' विंग, लोटस कॉपॉरेट

जबकि प्राधिकत ओमकारा एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड. (जिसे बाद में ''ओएआरपीएल'' कहा जाता है) प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण कम्पनी है जिसे

अंजली कुमार (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी 150ए, टैगोर पार्किंगवे कैम्प, दिल्ली— 1 10009, 3. श्री विराट कुमार (गारंटर) निवासी 1500 टैगोर पार्किंगवेय कैम्प, दिल्ली— 110009, **4. श्री सौरभ कुमार (गारंटर**) और अन्य लागतों । नेवासी १५०ए. टैगोर पार्किंगवेय कैम्प. दिल्ली— १ १०००९

150 का शेष भाग/सड़क, पूर्व : सर्विस लेन, दक्षिण : प्लॉट सं. 151, पश्चिम : 30 फुट सड़क